



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2456]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2010/अग्रहायण 12, 1932

No. 2456]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2010/AGRAHAYANA 12, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2894(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3132(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कि.मी. 128.950 (आरएचएस) से कि.मी. 129.970 (आरएचएस), कि.मी. 132.350 से कि.मी. 159.120 एवं कि.मी. 161.475 से कि.मी. 165.625 कि.मी. (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 13 जनवरी, 2010 को “दैनिक भास्कर” और “राजस्थान पत्रिका” में दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-78 के कि.मी.128+850 (आरएचएस) से कि.मी.129+970 (आरएचएस) कि.मी.132+350 से कि.मी.150+120 एवं कि. मी. 161+475 से कि.मी. 165+025 कि.मी. तक (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खण्ड) तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का सक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उदयपुर	वल्लभनगर	मन्देसर	383	निजी	छापरी कांकरी	0.0100	बजाज हिन्दुस्तान लि० उदयपुर
				385	सरकारी	छापरी कांकरी	0.1900	बिलानाम गैर का.का.
				386	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	0.0150	बिलानाम गैर का.का.
				404 मी	निजी	छापरी कांकरी	0.0600	बजाज हिन्दुस्तान लि० उदयपुर
				405	सरकारी	रास्ता	0.0050	बिलानाम रास्ता
						योग	0.2800	
2			ममरासिया	271	निजी	भूरी रेतीली बीड़	0.2300	अमरा प्रधा जेती पिता भजा डांगी श्रीमती मंजु पति मुरलीधर योनी 1/48 पावा विहार उदयपुर देवीलाल, दाकुबाई पेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कना डांगी कैलाशचन्द्र जमना पिता उदयलाल हीराबाई बेवा उदयलाल खालचन्द दुदालाल पिता उंकार सानीबाई बेवा उंकार दीपचन्द हेमराज कुशा रूपी पिता लोगर नकारी बेवा लोगर डांगी
				346	सरकारी	भूरी रेतीली बीड़	0.0100	बिलानाम सरकार
				347	निजी	भूरी रेतीली बीड़	0.0450	अमरा प्रधा जेती पिता भजा डांगी श्रीमती मंजु पति मुरलीधर योनी 1/48 पावा विहार उदयपुर देवीलाल, दाकुबाई पेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कना डांगी कैलाशचन्द्र जमना पिता उदयलाल हीराबाई बेवा उदयलाल खालचन्द दुदालाल पिता उंकार सानीबाई बेवा उंकार दीपचन्द हेमराज कुशा रूपी पिता लोगर नकारी बेवा लोगर डांगी
				348	निजी	भूरी रेतीली बीड़	0.0100	कैलाशचन्द्र जमना पिता उदयलाल हीराबाई बेवा उदयलाल 1/8 डांगी खालचन्द दुदालाल पिता उंकार लालीबाई बेवा उंकार 9/8 डांगी दीपचन्द हेमराज कुशा रूपी पिता लोगर नकारी बेवा लोगर 1/2 डांगी
				349	निजी	भूरी रेतीली बीड़	0.0400	कैलाशचन्द्र जमना पिता उदयलाल हीराबाई बेवा उदयलाल 1/8 डांगी खालचन्द दुदालाल पिता उंकार लालीबाई बेवा उंकार 9/8 डांगी दीपचन्द हेमराज कुशा रूपी पिता लोगर नकारी बेवा लोगर 1/2 डांगी
				350	निजी	भूरी खादी तालाबी 3	0.0450	देवीलाल दाकुबाई दोषीबाई पुरालाल पेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कन 1/4 अमरा प्रधा जेती पिता भजा 3/4 डांगी
				360	निजी	भूरी खादी तालाबी 3	0.0250	गोकल पिता केवल रावत
				365	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0050	बिलानाम सरकार
				366	निजी	भूरी खादी तालाबी 3	0.0450	भेरा नाना पिता कना 1/3 मांगीलाल हक्मीलाल जगदीश पिता माना 1/3 मोटु वरदा रामा तेजा पिता मेधा 1/3 रावत
				367	निजी	भूरी खादी तालाबी 3	0.0200	रामकृष्ण पिता सबा रावत
				371	निजी	भूरी खादी तालाबी 2	0.0100	डेला पृथ्वीराज पिता गंगाराम रावत जमनीबाई बेवा उदयलाल मांगीबाई बेवा शंकरलाल गोपाललाल पिता उदयलाल खेमराज पिता उदयलाल मीणा मोहन पिता पुरा 1/4 अमरा पिता सबा 1/4 रावत
				372	निजी	भूरी रेतीली खादी	0.0100	सुखलाल ख्यालीलाल पिता रुपा रावत
				373	निजी	भूरी रेतीली खादी	0.0150	रामा पिता मेधा 1/4 रावत भगवतीलाल पिता चतरा कौर 1/4 गोपा अमरा खेम खेता पिता बाला मानी बेवा बाला 1/4 रावत मांगु मोहन हीरा नखु पिता रता कंकु बेवा रता नखु ना.बा.ब.दि.माता कंकु बेवा रता 1/4 मीणा
				378	निजी	भूरी खादी तालाबी 2	0.0125	डेला पृथ्वीराज पिता गंगाराम रावत जमनीबाई बेवा उदयलाल मांगीबाई बेवा शंकरलाल गोपाललाल पिता उदयलाल खेमराज पिता उदयलाल मीणा मोहन पिता पुरा 1/4 अमरा पिता सबा 1/4 रावत
				380 मी.	निजी	भूरी खादी तालाबी 2	0.0125	ममरीया पित मोपा रावत
				380/2	निजी	भूरी खादी तालाबी 2	0.0125	देवीलाल पिता नारायण डांगी नि. फतहपुरा मावली
				425	निजी	भूरी खादी तालाबी 2	0.0650	मांगीलाल अमृतलाल पिता भेरुलाल 1/3 हि.ब. शंकरलाल गोपीलाल देवीलाल पिता भंवरलाल 1/3 नाथु नारायण पिता जगन्नाथ 1/3 लोहार
				426	निजी	भूरी तालाबी 3	0.0400	मांगीलाल अमृतलाल पिता भेरुलाल 1/3 हि.ब. शंकरलाल गोपीलाल देवीलाल पिता भंवरलाल 1/3 नाथु नारायण पिता जगन्नाथ 1/3 लोहार
				427	निजी	भूरी तालाबी 3	0.0400	भेरुलाल पितानाथु डांगी 2/9 लोगर पिता खेना 2/9 कालु पिता कमला मोतीलाल पिता कमला डांगी भंवरलाल पृथ्वीराज उदयलाल रोशनलाल हीरालाल डालीबाई रुक्मणीबाई दुर्गाबाई पिता शंकर लोहार पृथ्वीराज दलीचन्द पुरकर नानीबाई रुक्मणीबाई दुर्गाबाई पिता देवा वरदीबाई बेवा 1/9 लोहार मांगीलाल अमृतलाल पिता भेरा लुहार

				571	निजी	कुआ 1	कुआ 2	0.0750	देवीलाल दाकुबाई दोपीबाई पुरालाल पेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कन 1/4 अमरा प्रधा जेती पिता मजा 3/4 डांगी
				573					
				548	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2		0.0100	नारायणलाल पिता खेमराज 3/4 भगवतीलाल पिता शंकरलाल 1/4 ब्राह्मण
				549	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2		0.0375	भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण
				550	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2		0.0375	भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण
				551	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2		0.0325	प्रेम कुंवर पति लाल सिंह राजपुत नि. जोरजी का खंडा
				561	सरकारी	गैर मुमकीन रास्ता		0.0050	बिलानाम सरकार
				564	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2		0.0350	भेरा नाना पिता कना 1/3 मांगीलाल हकमीलाल जगदीश पिता माना 1/3 गोदु वरदा रामा तेजा पिता मेधा 1/3 रावत
				567	568	निजी	भूरी रेतीली तालाबी 2 गोरमा	0.0250	गोकल पिता केवल रावत
				615	निजी		कुआ 3	0.0250	गोविन्दराम पिता भुजाराम 13/147 डांगी मदनलाल पिता रेवा शंकर 7/147 ब्राह्मण देवीलाल दाकुबाई दोपीबाई पुरालाल प्रेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कना अमरा मोती पिता मजा डांगी
				623	निजी	भूरी रेतीली कांकरी		0.0200	बिलानाम सरकार
				624	निजी	भूरी रेतीली		0.0650	भेरुलाल उर्फ गेहरीलाल कन्हैयालाल मजाराम भवरी गोपी सोहनी गीता लक्ष्मी लाली पिता मोहन खेमपी बेवा मोहन 1/20 धर्मा रामा डालु पिता मोडा बरदीबचन्द फेवलचन्द गोपीबाई मोहनबाई पिता नन्दा कना चुनिया पिता दादु 1/20 रोडीबाई बेवा केवल दीपा दला पिता मोती 1/20 हि.ब. भगा पिता गमाना 1/4 कमला सवा उकार नारायण पिता कना गणेश पिता माना डांगी
				627	निजी	भूरी रेतीली		0.0250	हीरालाल पिता चतरभुज लोहार
				570/1	निजी	भरी तालाबी 2		0.0150	कैलाशचन्द जमना पिता उदयलाल हीराबाई बेवा उदयलाल 1/8 डांगी डालचन्द दुवालाल पिता उंकार लालीबाई बेवा उंकार 9/8 डांगी दीपचन्द हेमराज कुशा रूपी पिता लोगर नकारी बेवा लोगर 1/2 डांगी
				570/2	निजी	भुरी तालाबी 2		0.0150	देवीलाल दाकुबाई दोपीबाई पुरालाल पेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कन 1/4 अमरा प्रधा जेती पिता मजा 3/4 डांगी
				616/1	निजी	भूरी कांकरी		0.1200	गोविन्दराम पिता भुजाराम 13/147 डांगी मदनलाल पिता रेवा शंकर 7/147 ब्राह्मण देवीलाल दाकुबाई दोपीबाई पुरालाल प्रेमराज पिता कना चम्पाबाई बेवा कना अमरा मोती पिता मजा डांगी
				362	निजी	भूरी रेतीली खादी		0.0200	भमरीया पिता मोपा रावत
				423	निजी	आहाता खड़डा		0.0025	कुका पिता गणेश हीरा लखा पिता पुरा उंकार नारायण पिता कना कमला पिता सखा डांगी सा. देह खातेदार
						योग		1.2575	
3			मटेवर	849	निजी	वाणिज्यिक		0.0100	श्रीमती सुशीला पत्नी रामलाल जणवा सा. देह खातेदार
				849/1	निजी	ता.प्रथम		0.0400	श्रीमती सुशीला पत्नी रामलाल जणवा सा. देह खातेदार
				850	निजी	वाणिज्यिक		0.0350	बदामी पत्नी नानालाल जणवा भरत कुनार प्रकाशचन्द पिता हरिकृष्ण कालू भूरा पिता हिरा सा. देह खातेदार जणवा सा.खातेदार
				852	निजी	वाणिज्यिक		0.0050	कालु पिता लच्छीराम जणवा गेहरीलाल पिता उंकार
				854	निजी	वाणिज्यिक		0.0550	बादामी बाई पत्नी नानालाल जणवा, दुर्गा पिता मगनीराम नागदा, देवीलाल पिता गमाना डांगी बगदीबाई पत्नी मोहनलाल जणवा, मेधरज पिता सयाराम डांगी जीतु पिता सुखा नागदा सा. देह खातेदार
				855	सरकारी	मन्दिर		0.0100	बिलानाम सरकार
				857/1	निजी	वाणिज्यिक		0.0100	माधवलाल पिता मियचन्द गोविन्द पिता नारायण नगदा, जगन्नाथ पिता नारायण नागदा शंकरलाल नारायण कालु पिता भाणा जणवा सा. देह खातेदार
				857/2	निजी	वाणिज्यिक		0.0200	मांगीलाल जगन्नाथ किशनलाल पिता रामा जणवा सा. देह खातेदार
				858 मी.	निजी	वाणिज्यिक		0.0200	नानालाल पिता चुन्नीलाल जणवा सा. देह खातेदार
				858	निजी	कुआ 1		0.0400	नानालाल पिता चुन्नीलाल जणवा सा. देह खातेदार
				860 मी.	निजी	कुआ 1		0.0400	मांगीलाल पिता चतरा 3/60 गायरी किशनलाल दिनेश पिता माना 17/60 जणवा लोगर मिदु दलीचन्द पिता शंकर 1/3 बादामी बेवा नाथुलाल 1/3 जणवा लालु 11/38 श्यामुबाई पत्नी इन्दमल 1/38
				861	निजी	कुआ 2		0.0100	चतरा उंकार बाबरु लालु पिता कालु खेमी बेवा कालु गाढरी सा. देह खातेदार
				862	निजी	कुआ 1		0.0100	चतरा उंकार बाबरु लालु पिता कालु खेमी बेवा कालु नारायण सुन्दरबाई पिता गेरु बाबरु पिता भुरा लाली बेवा भुरा गायरी कना पिता हमरा कना पिता रुपा गायरी गंगा बेवा बेणा कना पिता कालु कुम्हार सा. देह खातेदार
				868	निजी	गैर मुमकीन रास्ता		0.0200	बिलानाम सरकार
				1028	निजी	कुआ 1		0.0050	तुलसीराम पिता किशनलाल 2/3 प्रकाश पिता कालु बसन्ती बेवा प्रकाश 1/3 जणवा सा. देह खातेदार
				1027	निजी	कुआ 1		0.0350	अमृतलाल पिता लक्ष्मण पुर्बीया गायरी सा. देह खातेदार

				1044	निजी	ता.प्रथम	0.0400	साबलिया जी स्थान उदयपुर
				1045	निजी	ता.प्रथम	0.0500	साबलिया जी स्थान उदयपुर
				1050	निजी	ता.प्रथम	0.0025	साबलिया जी स्थान उदयपुर
				1052	निजी	ता.प्रथम	0.0150	साबलिया जी स्थान उदयपुर
				1053	निजी	ता.प्रथम	0.0500	साबलिया जी स्थान उदयपुर
				1060 मी.	निजी	तालाबी प्रथम	0.0200	मीठालाल छगनलाल घासीराम पिता डालचन्द जणवा सा. देह खातेदार
				1061 मी.	निजी	व्यवसायिक	0.0500	श्रीमतीशान्ता पत्नी मीठालाल महाजन सा. देह खातेदार
				1062 मी.	निजी	तालाबी प्रथम	0.0250	किशनलाल पिता सबा जणवा सा. देह खातेदार
				1071	निजी	तालाबी प्रथम	0.0350	कुसुमलता पत्नी गणेशलाल मन्दुदेवी पत्नी ललित कुमार ब्रह्मण मांगीलाल पिता नानालाल टांकु भरत कुमार प्रकाशचन्द पिता हरिकृष्ण बाहाण सा. देह खातेदार
				1073	निजी	कुआ प्रथम	0.0650	शोभालाल पिता शंकर चांदी बेवा शंकर जणवा सा. देह खातेदार
				1074	निजी	कुआ प्रथम	0.0750	सोवनी बेवा रामलाल जणवा सा. देह खातेदार
				1075	निजी	अहाता खड्डा	0.0050	सोवनी बेवा रामलाल जणवा सा. देह खातेदार
				1076	निजी	वाणिज्यिक	0.0050	देवीलाल शान्ताबाई पिता मांगीलाल मु. नारायणी बेवा मांगीलाल लेहरी बाई बेवा माणकचन्द जणवा दलीचन्द पिता हिरालाल जणवा सा. देह खातेदार
				1076	निजी	तालाबी प्रथम	0.0175	देवीलाल शान्ताबाई पिता मांगीलाल मु. नारायणी बेवा मांगीलाल लेहरी बाई बेवा माणकचन्द जणवा दलीचन्द पिता हिरालाल जणवा सा. देह खातेदार
				1077	निजी	वाणिज्यिक	0.0050	गणेशलाल पुरणमल पिता चुन्नीलाल सुधार 2/3 गेहरीलाल पिता चुन्नीलाल 1/3 जणवा सा. देह खातेदार
				1077	निजी	तालाबी प्रथम	0.0150	गणेशलाल पुरणमल पिता चुन्नीलाल सुधार 2/3 गेहरीलाल पिता चुन्नीलाल 1/3 जणवा सा. देह खातेदार
				1079	निजी	तालाबी प्रथम	0.0200	रूपलाल पिता मेमा जणवा सा. देह खातेदार
				1234	निजी	बाड़ा	0.0100	परसराम पिता नारायणलाल केशीबाई बेवा नारायणलाल सुधार 1/2 धनराज पिता गेहरीलाल 1/2 सुधार सा. देह खातेदार
				1236 मी.	निजी	कुआ 2	0.0250	भेरुलाल पिता मोती नाई सा. देह खातेदार
				1237	निजी	कुआ 1	0.0225	भेरुलाल पिता मोती नाई सा. देह खातेदार
				1239	निजी	बीड 1	0.0050	भवरलाल पिता पना 1/3 मनोरी बेवा बाबुलाल संजय भरत पिता बाबुलाल मांगीबाई बेवा रूपलाल 1/3 नाई गोपीलाल पिता किशनलाल 1/3 नाई सा. देह खातेदार
				1246	निजी	वाणिज्यिक	0.0300	किशनलाल पिता रता नाई सा. देह खातेदार
				1246	निजी	तालाबी 2	0.0250	किशनलाल पिता रता नाई सा. देह खातेदार
						योग	0.9775	
4			वाना	103 मी.	निजी	कुआ 3	0.0750	मांगीलाल पिता पूरा नाराणी पत्ति पूरा मीणा सा.देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. मेनार
				104 मी.	निजी	बीड 2	0.0400	उंकारलाल हुक्मीचन्द पिता शंकरलाल ब्रह्मण सा.देह खातेदार रहन उंकारलाल का 1/2 हिस्सा पर एस.बी.बी.जे. मेनार
				107 मी.	निजी	कुआ 3	0.0250	बगदीराम पिता रुपा औड सा.देह
				108 मी.	निजी	कुआ 3 आबादी	0.0600	बगदीराम पिता रुपा औड सा.देह
				108/1	निजी	आबादी	0.0150	प्रेमशंकर प्रकाशचन्द पिता लक्ष्मीलाल मेनारिया सा.देह
				130	निजी	खादी 2	0.0200	मोहनबाई पिता उंकार 1/3, ब्रह्मण भगवान पिता रामा 1/3 भूसा पिता मोती 1/3 लोहार सा.देह खातेदार
				131	निजी	आबादी	0.0025	मोहनलाल पिता प्रभुलाल ब्रह्मण सा.देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. भीन्डर
				136	निजी	कुआ 3	0.0450	मोहनबाई पिता उंकार ब्रह्मण सा.देह खातेदार
				137	निजी	खड्डा	0.0050	नारायणलाल पिता नवलराम मु. मोहनबाई पिता उंकार देवीलाल पिता रूपलाल मु. नोजी बेवा रूपलाल सोहनलाल पिता गणेश मु. प्रतापी बेवा गणेश हिरा लाल पिता रामरतन ओमप्रकाश जमनालाल पिता डालचन्द ब्रह्मण
				138	निजी	खादी 1	0.0250	हरिशंकर पिता उंकारलाल ब्रह्मण सा.देह खातेदार
				139	निजी	कुआ 2	0.0150	मोहनबाई पिता उंकार ब्रह्मण सा.देह खातेदार
				140	निजी	आहाता चाहा	0.0100	मोहनबाई पिता उंकार ब्रह्मण सा.देह खातेदार
				141	निजी	खादी 2	0.1100	नन्दलाल पिता कालूलाल ब्रह्मण सा.देह
				142	सरकारी	गैर मुम्किन आबादी	0.4000	बिलावाम सरकार
				605	निजी	कुआ 2	0.0325	श्रीमति रुक्मणीबाई बेवा लक्ष्मीलाल 1/10 ब्रह्मण उदी बेवा जगन्नाथ 3/20 लोहार कमला रुपी सज्जन पिता जगन्नाथ 3/4 लोहार सा. देह खातेदार
				606	निजी	बीड 1 कुआ 2	0.0950	कमला रुपी सज्जन पिता जगन्नाथ 3/4 लोहार दुर्गाशंकर खूबीलाल पिता नारायण 1/12 ब्रह्मण रामेश्वरलाल पिता अम्बालाल 7/9 ब्रह्मण मु. अम्बाबाई बेवा किशनलाल 3/12 प्रकाश पूजा पिता उंकारलाल ना.बा.बा.दि. माता कमला मु. कमला बेवा उंकारलाल 3/12 ब्रह्मण सा.देह खातेदार

				611	निजी	गैर मुमकिन मकान कुआ 3	0.0325	गणपत उमाशंकर रमेश बंशीलाल लेहरी पिता भूरालाल मु. ललिता बेवा भूरालाल 1/4 बंशीलाल पिता हेमराज 1/16 मोहनबाई पति बंशीलाल 3/16 नारायणलाल पिता उंकार 1/2 बहमण सा.देह खातेदार
				708 मी.	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0150	बिलानाम सरकार
				710 मी.	निजी	कुआ 1	0.0175	घतरभुज जशोदा शान्ता उमा पिता शंकरलाल मु. सवागी बेवा शंकरलाल सुधार सा.देह खातेदार
				711	निजी	बीड 1	0.0750	घतरभुज जशोदा शान्ता उमा पिता शंकरलाल मु. सवागी बेवा शंकरलाल सुधार सा.देह खातेदार
				712	निजी	कुआ 2	0.0200	घतरभुज जशोदा शान्ता उमा पिता शंकरलाल मु. सवागी बेवा शंकरलाल सुधार सा.देह खातेदार
				714	निजी	पाल	0.0150	समस्त माफीदार खास उप कृषक देवीलाल पिता किशना तेली सा.देह सिजारी
				715 मी.	निजी	बाडा	0.0250	कन्हैयालाल जमनालाल मोदनी पिता शंकरलाल बहमण सा.देह खातेदार
				718 मी.	निजी	खादी 2	0.0900	नन्दलाल पिता कालूलाल बहमण सा.देह
				720 मी.	निजी	आबादी	0.0375	मोहनबाई पिता उंकार 19/32 अन्हाई पति भगवतीलाल 31/400 राजूदेवी पति दशरथ 283/800 जमना पति छगनलाल 31/400 भाग सा.देह खातेदार
				721 मी.	निजी	खड्डा	0.0050	नन्दलाल पिता कालूलाल बहमण सा.देह
				722 मी.	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0300	बिलानाम सरकार
				725 मी.	निजी	बाडा	0.0025	धन्नालाल पिता वेरीलाल सुधार सा.देह खातेदार
				725/1	निजी	आवासी	0.0025	धन्नालाल पिता वेरीलाल सुधार सा.देह खातेदार
				726	निजी	बाडा	0.0075	श्रीलाल पिता प्रताबलाल बहमण सा.देह खातेदार
				727	निजी	बाडा	0.0050	शंकरलाल पिता कशना बहमण सा.देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. मेनार
				728	निजी	बाडा	0.0025	मांगीलाल रुपलाल पिता गणेश बहमण सा.देह
				729	निजी	बाडा	0.0200	गिरधरलाल रामेश्वरलाल बादामी जशोदा लक्ष्मी पिता अम्बालाल गेदीबाई बेवा अम्बालाल बहमण सा.देह
				740	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0075	बिलानाम सरकार
				742	निजी	बाडा	0.0100	गणेशलाल पिता खेमराज बहमण सा.देह खातेदार
				743	निजी	बाडा	0.0050	तुलसीराम पिता खेमराज बहमण सा.देह
				745	निजी	बाडा	0.0150	मधुरालाल किशनलाल बिष्णुराम प्रभुलाल भूरालाल पिता वेरीलाल बहमण सा. देह खातेदार
				746	निजी	बाडा	0.0550	नारायणलाल हिरालाल पिता घतरभुज बहमण नारायणलाल का 1/2 भाग रहन एस.बी.बी.जे. मेनार
				748 मी.	सरकारी	पडत 2	0.3350	बिलानाम सरकार
						योग हेक्टेयर	1.8050	
5			नवानीया	1808	निजी	माल 1 बी पडत 2	0.0300	देवेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल घोषी सा. खेरोदा खातेदार
				1809	निजी	माल 1 बी पडत 2	0.0200	छोगालाल पिता खेमराज मेघवाल सा. देह खातेदार
				1810	निजी	माल 1 बी पडत 2	0.0050	छोगालाल पिता खेमराज 1/2 मेघवाल संगीता पत्नी भगवानलाल 1/2 खटीक सा. देह खातेदार
				1811 मी.	निजी	माल 2	0.1050	प्यारचन्द पिता नन्दा पीसर कनीराम मोडीराम भगवान खटीक सा. देह खातेदार
				1813/1 मी.	निजी	माल 1बी	0.0125	छोगालाल पिता खेमराज मेघवाल सा. देह खातेदार
				1814 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0250	भंवरलाल पारसमल शान्ताबाई कैलाशबाई बेबीबाई पिता मांगीलाल धागुबाई बेवा मांगीलाल 6/7 मीठालाल पिता चुन्नीलाल अण्णुबाई बेवा चुन्नीलाल महाजन 1/7 सा. देह खातेदार
				1815 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0225	धर्मराज पिता पुरा मेघवाल सा. देह खातेदार
				1818 मी.	निजी	माल 2 बी बीड 2	0.0300	ऋतिक पिता खेमराज मेघवाल सा. देह खातेदार
				1819 मी.	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0050	बिलानाम सरकार
				1821 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0400	भुरा पिता नाना 1/2 गोपीलाल लक्ष्मीलाल नक्षत्रमल भगवतीलाल पिता देवकिशन जेतुबाई बेवा देवकिशन जेतुबाई बेवा देवकिशन 1/2 गुर्जर सा. देह खातेदार
				1823 मी.	निजी	माल 1 बी पडत 2	0.0400	तुलसीराम पिता डालु मणीबाई बेवा डालु जणवा सा. देह खातेदार
				1824 मी.	निजी	माल 1 बी माल 2	0.0200	निर्मला देवी पत्नी शान्तीलाल कलाल सा. करणपुर खातेदार
				1825 मी.	निजी	माल 1 बी पडत 2	0.0200	निर्मला देवी पत्नी शान्तीलाल कलाल सा. करणपुर खातेदार
				1826 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0100	श्यामाबाई पत्नी लक्ष्मीलाल डोली सा. कानोड खातेदार

4640 9710-2

				1827 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0150	दाखीबाई पत्नी सुखलाल डोली 1/2 सा. कालीवास रामा पिता अमरा 1/2 मेघवाल सा. देह खातेदार
				1828 मी.	निजी	माल 1 बी व्यवसायीक	0.0100	धर्मराज पिता पुरा मेघवाल सा. देह खातेदार
				1850/2	निजी	माल 1	0.0400	भुरा पिता नाना 1/2 गोपीलाल लक्ष्मीलाल नक्षत्रमल भगवतीलाल पिता देवकिशन जेतुबाई बेवा देवकिशन जेतुबाई बेवा देवकिशन 1/2 गुर्जर सा. देह खातेदार
				1851 मी.	निजी	माल 1	0.0400	भेरू उर्फ कालु पिता बाबरू गुर्जर सा. देह खातेदार
				1852 मी.	निजी	माल 1	0.0400	लागर उर्फ हीरालाल पिता उदा गुर्जर सा. देह खातेदार
				1861/2	निजी	माल 2	0.0500	कना पिता परथा बलाई सा. देह खातेदार
				1861 मी.	निजी	उद्योग	0.0500	रोडीबाई पत्नी मांगीलाल मेघवाल सा. खालातोड पी. सुकुमारन नायर पिता एन. गोविन्दन नायर सा. उदयपुर
				1941/2 मी.	सरकारी	गैर मुमकीन आबादी	0.0050	बिलानाम सरकार
				2015 मी.	निजी	माल 1	0.0400	चमनशेखर पिता उकारसुधार सा. देह खातेदार
				2016 मी.	निजी	माल 1	0.0450	तुलसीराम पिता डालु मणीबाई बेवा डालु जणवा सा. देह खातेदार
				2019 मी.	निजी	माल 2	0.0900	मीनादेवी पत्नी कालुलाल जैन सा. उदयपुर
				2020 मी.	निजी	माल 1 व्यवसायीक	0.0200	मोहन पिता धनजी बलाई सा. देह खातेदार
				1813/2 मी.	निजी	माल 1 बी	0.0125	सिमरन पत्नी ऋतिक मेघवाल सा. उदयपुर खातेदार
						योग	0.8425	
6			बड़गाव	1	तनाजा	गैर मुमकीन	0.0500	बिलानाम सरकार गैर का.का.
				79	सरकारी	रास्ता	0.0100	बिलानाम सरकार गैर का.का.
				81 मी.	निजी	भूरी रेतीली कदीम	0.0300	शम्भुगर हिरागर पिता भेरूगर गुसाई सा. अमरपुरा 40/42 नटवरसिंह पिता रूपसिंह 2/42 सा. देह रहन सी.बी.आई. बैंकहिता हिस्सा शम्भुगर 20/42 पर
				83 मी.	निजी	भूरी रेतीली कदीम	0.0400	शम्भुगर 1/2 हिरागर 1/2 पिता भेरूगर गुसाई सा. अमरपुरा खातेदार
				84 मी.	निजी	भूरी रेतीली करीम	0.0300	भगा पिता घन्ना 1/3 बंशीलाल कमली काली कंकु पिता नरसिंग दुर्गा हजारी पृथ्वीराज धीसी पिता जसा मु० धापु बेवा जसा 2/3 हि. ब. बजारा सा. देह खातेदार
				85 मी.	निजी	भूरी रेतीली कदीम	0.0200	भगा पिता घन्ना 1/3 बंशीलाल कमली काली कंकु पिता नरसिंग दुर्गा हजारी पृथ्वीराज धीसी पिता जसा मु० धापु बेवा जसा 2/3 हि. ब. बजारा सा. देह खातेदार
				124 मी.	निजी	भूरी रेतीली कदीम	0.0400	भवर सिंह, गोविन्द सिंह, नटवर सिंह, प्रेम सिंह पिता रूप सिंह 1/8 हि.ब. डूंगर सिंह उकार सिंह पिता भेरूसिंह मदन कुंवर पत्नी भेरू सिंह 1/8 केशर सिंह नवल सिंह हिम्मत सिंह मोहब्बत सिंह पिता मोड सिंह 1/4 ईश्वर सिंह केशर सिंह नारायण सिंह कल्याण सिंह पिता गोपाल सिंह मु० किशन कुंवर बेवा गोपाल सिंह 1/8 हि.ब. घनन सिंह पिता धुकल सिंह 1/8 पृथ्वी सिंह मोहनसिंह पिता जय सिंह 1/8 फतह सिंह अर्जुन सिंह लाल सिंह मोहन कुंवर शंकर कुंवर सज्जन कुंवर पिता हमेर सिंह मितु कुंवर पत्नी हमेर सिंह 1/8 राजपूत सा. वजा मगरी खातेदार
				125 मी.	निजी	भूरी रेतीली बीड कदीम	0.1300	हीरा पिता उकार गुर्जर सा. नेगडीया खातेदार
				164/1	निजी	भूरी रेतीली बीड	0.0050	हरिराम मांगीलाल नारायणलाल पिता देवजी गुर्जर 3/4 सा. नेगडीया राकेश पिता मोहनलाल जैन 1/4 सा. उदयपुर खातेदार
				164/3 मी.	निजी	भूरी रेतीली बीड	0.0100	हीरा पिता उकार गुर्जर सा. नेगडीया खातेदार
				77	सरकारी	भटवेड	0.0400	बिलानाम सरकार गैर का.का.
				163/1	निजी	भूउ.चाही	0.0100	हरिराम मांगीलाल नारायणलाल पिता देवजी गुर्जर 3/4 सा. नेगडीया राकेश पिता मोहनलाल जैन 1/4 सा. उदयपुर खातेदार
						योग	0.4150	

[फा. सं. भारासप्रा/एनएचडीपी-V/एमसी-II/बीओटी/केयू/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2010

S.O. 2894(E).— Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3132 (E), dated the 7th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-76, on the stretch of land from Km.128+950 (RHS) to Km.129+970 (RHS), Km.132+350 to Km.159+120 & Km.161+475 to Km.165+625 (Udaipur -Chittorgarh Section) in District Udaipur in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Rajasthan Patrika" both dated the 13th January, 2010; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

4640
7

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km.128+950 (RHS) to Km.129+970 (RHS), Km.132+350 to Km.159+120 & Km.161+475 to Km.165+625 (Udaipur -Chittorgarh Section) of National Highway No.76 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of district	Name of taluka	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare)	Name of person(s) interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Udaipur	Vallabhnagar	Mandesar	383	Private	Chapri Kankari	0.0100	Bajaj Hindusthan Ltd. Udaipur
				385	Government	Chapri Kankari	0.1900	Bilanam Na.Ka.Ka.
				386	Government	Gair Mumkin Naala	0.0150	Bilanam Na.Ka.Ka.
				404M	Private	Chapri Kankari	0.0600	Bajaj Hindusthan Ltd. Udaipur
				405	Government	Rasta	0.0050	Bilanam Rasta
						Total	0.2800	
2			Bhamrasiya	271	Private	Bhuri retilee beer	0.2300	Amera Pretha Jati s/o Bhja Smt. Manju w/o Murtidhar Soni 1/48 r/o 29 Pawa Bihar Udaipur Devilal Dakhubai Dolibai Pemraj so Kena Champa bai w/o Kena Dangi Kaleshchand Jemna s/o Udailal Herabai w/o udailal Delchand Dudalal S/o Unkar sanibai w/o Unkar Dangi Deepchand Hemraj Kusha Rupri S/o Logar Nakari W/o Logar Dangi
				346	Government	Bhuri retilee beer	0.0100	Bilanam Sarkar
				347	Private	Bhuri retilee beer	0.0450	Amera Pretha Jati s/o Bhja Smt. Manju w/o Murtidhar Soni 1/48 r/o 29 Pawa Bihar Udaipur Devilal Dakhubai Dolibai Pemraj so Kena Champa bai w/o Kena Dangi Kaleshchand Jemna s/o Udailal Herabai w/o udailal Delchand Dudalal S/o Unkar sanibai w/o Unkar Dangi Deepchand Hemraj Kusha Rupri S/o Logar Nakari W/o Logar Dangi
				348	Private	Bhuri retilee beer	0.0100	Kalishchand Jamuna s/o Udailal Heerabai w/o Udailal 1/8 Dangi Daichand, Dudalal s/o Unkar Lalibai w/o Unkar 3/8 Dangi Deep chand Hemraj Kusha Rupri s/o Loger Nakari w/o Logar 1/2 Dangi
				349	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0400	Kalishchand Jamuna s/o Udailal Heerabai w/o Udailal 1/8 Dangi Daichand, Dudalal s/o Unkar Lalibai w/o Unkar 3/8 Dangi Deep chand Hemraj Kusha Rupri s/o Loger Nakari w/o Logar 1/2 Dangi
				350	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0450	Devailal Dopibai Puralal Pemraj s/o kana Champabai w/o kana 1/4 amera Perthia Jati s/o Bhaja 3/4 Dangi
				360	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0250	Gukat s/o Kewal Rawat
				365	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0050	Bilanam Sarkar
				366	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0450	Bhera Nana s/o Kana 1/3 Mangital Hukmilal jaidish s/o Mana 1/3 Gotu Verda Rema Teja S/o Megha 1/3 Rawat
				367	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0200	Rambax s/o Sawa Rawat
				371	Private	Bhuri Khadi Tabali 2	0.0100	Dela Prithviraj s/o Gangaram Rawat Jumunibai w/o Udailal Mangibai w/o Shankertal Gopalal s/o Udailal Khemraj s/o Udailal Meena Mohan s/o Pura 1/4 Amara s/o Sawa 1/4 Rawat
				372	Private	Bhuri retilee Khadi	0.0100	Sukhlal Khyalilal s/o Rupa Rawat
				373	Private	Bhuri retilee Khadi	0.0150	Rama s/o Megha 1/4 Rawat Bhagawatilal s/o Chatra Keer 1/4 Gopa Amara Khema Kheta s/o Vala Mani w/o Vala 1/4 Rawat Mangu Mohan Heera Nabu s/o Rata kanku w/o Rata Nabu Heera Na.ba.b.va.Mother Kanku w/o Rata 1/4 Meena
				378	Private	Bhuri Khadi Tabali 2	0.0125	Dela Prithviraj s/o Gangaram Rawat Jumunibai w/o Udailal Mangibai w/o Shankertal Gopalal s/o Udailal Khemraj s/o Udailal Meena Mohan s/o Pura 1/4 Amara s/o Sawa 1/4 Rawat

				380 M	Private	Bhuri Khadi Tabali 2	0.0125	Bhamria S/o Bhupa Rawat
				380/2	Private	Bhuri Khadi Tabali 2	0.0125	Devilal s/o Narayan Dangi Fatehpura, Mavli
				425	Private	Bhuri Tabali 2	0.0650	Mangilal Amritlal s/o Bherulal 1/3 H.B. Shankarlal Gopilal Devilal s/o Bhawarlal 1/3 Nathu Narayan s/o Jagannath 1/3 lohar Niwashi Bhamrasiya
				426	Private	Bhuri Khadi Tabali 3	0.0400	Mangilal Amritlal s/o Bherulal 1/3 H.B. Shankarlal Gopilal Devilal s/o Bhawarlal 1/3 Nathu Narayan s/o Jagannath 1/3 lohar Niwashi Bhamrasiya
				427	Private	Bhuri Tabali 3	0.0400	Bheralal s/o Nathu Dangi 2/9 Logar s/o Khema 2/9 Kalu s/o Kamla Motilal S/o Kamla 2/9 Danghi Bhawarlal Prithviraj Udailal Roshanlal Heeralal Dalibai Rukmanibai Durgabai s/o Shankar Lohar Prithviraj Dalchand Pushkar Nanibai Rukmani Durgabai S/o Deva Verdibai w/o Deva 1/9 Lohar Mangilal Amrat Lal s/o Bhera Lohar
				571 573	Private	Kuwa 1 Kuwa 2	0.0750	Devalilal Dopibai Puralal Pemraj s/o kana Champabai w/o kana 1/4 amera Perth Jati s/o Bhaja 3/4 Dangi
				546	Private	Bhuri retili tabali 2	0.0100	Narayanlal s/o Khemraj 3/4 Bhagwatilal s/o Shankarlal 1/4 Brahman
				549	Private	Bhuri retili tabali 2	0.0375	Bhagwatilal s/o Shankarlal Brahman
				550	Private	Bhuri retili tabali 2	0.0375	Bhagwatilal s/o Shankarlal Brahman
				551	Private	Bhuri retili tabali 2	0.0325	Prem Kuwar w/o Lalsingh Rajpur r/o Joreki ka kheda
				561	Government	Gere Mumkin Rasta	0.0050	Bilanam Sarkar
				564	Private	Bhuri retili tabali 2	0.0350	Bhera Nana s/o Kana 1/3 Mangilal Hukmilal jaidish s/o Mana 1/3 Gotu Verda Rema Teja S/o Megha 1/3 Rawat
				567 568	Private	Bhuri retili Gomera Talabi 2	0.0250	Gokul s/o Kewal Rawat Niwash Bhamrasiya
				615	Private	Kuwa 3	0.0250	Govindram s/o Bhajaram 13/147 Dangi Madanlal s/o Reva shanker 7/147 Brahman Devilal Dakubai Dopibai Puralal Pemraj s/o Kana Champabai W/o Kana Amara Moti s/o Bhaja Dangi
				623	Private	Bhuri retili Kakri	0.0200	Bilanam Sarkar
				624	Private	Bhuri retili	0.0650	Bherulal Urf Geharlal Kanhyalal Bhajaram Bhanwari Gopi Sohani Geeta Laxmi Lali s/o Mohan Khemi w/o Mohan 1/20 Dharma Rama Dalu s/o Moda Vardichand Kevachand Gopilal Mohanibai s/o Nanda kana Chunia s/o Dadu 1/20 Rodibai w/o Kewal Deepa Dala s/o Moti 1/20 H.B. Bhaga s/o Gumana 1/4 KaMal Sava Unkar Narayan s/o Kana Ganesh s/o Mana Dangi
				627	Private	Bhuri retili	0.0250	Heeralal S/o Chaturbhuj Loar
				570/1	Private	Bhuri Talabi 2	0.0150	Kalishchand Jamuna s/o Udailal Heerabai w/o Udailal 1/8 Dangi Daichand, Dudailal s/o Unkar Lalibai w/o Unkar 3/8 Dangi Deep chand Hemraj Kusha Rupai s/o Loger Nakari w/o Logar. 1/2 Dangi
				570/2	Private	Bhuri Talabi 2	0.0150	Devalilal Dopibai Puralal Pemraj s/o kana Champabai w/o kana 1/4 amera Perth Jati s/o Bhaja 3/4 Dangi
				616/1	Private	Bhuri Kakri	0.1200	Govindram s/o Bhajaram 13/147 Dangi Madanlal s/o Reva shanker 7/147 Brahman Devilal Dakubai Dopibai Puralal Pemraj s/o Kana Champabai W/o Kana Amara Moti s/o Bhaja Dangi
				362	Private	Bhuri retili khadi	0.0200	Bhemareya S/o Bhopa Rawat
				423	Private	Aahat Keeda	0.0025	Kuka S/o Ganesh Heera Lekha S/o Pura Unkar Narayan S/o kana Kamla S/o Sakha Dangi Sa. Deh Kheatadar
						Total	1.2575	
3			Bhatewar	849	Private	Commercial	0.0100	Smt. Sushila W/o Ramlal Janva Niwashi Bhatewar Khatedar
				849/1	Private	Talabi 1	0.0400	Smt. Sushila W/o Ramlal Janva Niwashi Bhatewar Khatedar

4640 9/10-3

				850	Private	Commercial	0.0350	Badami W/o Nanalal Janva Sa. Deh. Khatedar Bharat Kumar Prakash Chand S/o Harikrishna S/o Kalu Bhura S/o Heera Janva Sa. Deh. Khatedar
				852	Private	Commercial	0.0050	Kalu /o Lachhiram Janva Gehnilal S/o Unkar
				854	Private	Commercial	0.0550	Badami W/o Nanalal Janva Durgesh S/o. Mangni Ram Nagda Davilal S/o Gamana Dangi Vagdi Bai W/o of Mohanlal Janva Meghraj S/o Savram Danghi Jeetu S/o Sukha Janva Niwashi Bhatewar
				855	Government	Mandir	0.0100	Bilanam Sarkar
				857/1	Private	Commercial	0.0100	Madhavlal S/o Meela chand Govind S/o Narayan Nagda jaganath S/o Narayan Nagda Shankarlal Narayan Kalu S/o Bhana Janva Sa. Deh. Khatedar Niwashi Bhatewar
				857/2	Private	Commercial	0.0200	Mangilal jaganath Kishanlal S/o Rama Janva sa. Deh. Khatedar
				858 M	Private	Commercial	0.0200	Nanalal S/o Chunilal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				858	Private	Kuwa 1	0.0400	Nanalal S/o Chunilal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				860 M	Private	Kuwa 1	0.0400	Mangilal S/o Chatra 3/60 Gayari Kishanlal Dinesh S/o Mana 17/60 Janva logar Methu Dalchand S/o Shanker 1/43 Badami W/o Nathulal 1/3 Janva Lalu 11/36 Shaymubai W/o Indermal 1/36
				861	Private	Kuwa 2	0.0100	Chatara Unkar Babru Lalu S/o Kalu khemi W/o Kalu Gadri Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				862	Private	Kuwa 1	0.0100	Chatara Unkar Babru Lalu S/o Kalu khemi W/o Kalu, Narayan Sunderbai S/o Geru Baburu S/o Bhura Lal W/o Bhura Gayeri Kana S/o Hemara Kana S/o Rupa Gayeri Ganga W/o Bena Kana S/o Kalu Kumhar Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				868	Private	Ger Mumkin Rasta	0.0200	Bilanam Sarkar.
				1026	Private	Kuwa 1	0.0050	Tulsiram S/o Kishanlal 2/3 Prakash S/o Kalu Basanti W/o Prakash 1/3 Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1027	Private	Kuwa 1	0.0350	Amritlal S/o Laxman Purbai Gayeri Sa. Deh. Khatedar.
				1044	Private	Ta. 1	0.0400	Sawariya Ji Sthan Udaipur
				1045	Private	Ta. 1	0.0500	Sawariya Ji Sthan Udaipur
				1050	Private	Ta. 1	0.0025	Sawariya Ji Sthan Udaipur
				1052	Private	Ta. 1	0.0150	Sawariya Ji Sthan Udaipur
				1053	Private	Ta. 1	0.0500	Sawariya Ji Sthan Udaipur
				1060 M	Private	Talabi 1	0.0200	Mithalal Chhaganlal Ghasiram S/o Dalchand Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1061 M	Private	Commicrot	0.0500	Smt. Shanta W/o Mithalal Mahajan Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1062 M	Private	Talabi 1	0.0250	Kishanlal Banshilal S/o Sava Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1071	Private	Talabi 1	0.0350	Kusumlata W/o Ganeshlal Manjudevi W/o Lalitumar Brahman Mangilal S/o Nanalal Tanku Bharat kumar Prakashchand S/o Harikrishan Brahman Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1073	Private	Kuwa 1	0.0650	Shobhalal S/o Shanker Chand W/o Shanker Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1074	Private	Kuwa 1	0.0750	Sowani W/o Ramlal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1075	Private	Aahata Khadda	0.0050	Sowani W/o Ramlal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1076	Private	Commercial	0.0050	Devilal Shantabai S/o Mangilal Narayani W/o Mangilal Lehaeribai W/o Manakchand Janva Delicand S/o. Heera Lal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1076	Private	Talabi 1	0.0175	Devilal Shantabai S/o Mangilal Narayani W/o Mangilal Lehaeribai W/o Manakchand Janva Delicand S/o. Heera Lal Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1077	Private	Commercial	0.0050	Ganeshlal Purenmal S/o Chunilal Sutar 2/3 Geharilal S/o Chunilal 1/3 Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1077	Private	Talabi 1	0.0150	Ganeshlal Purenmal S/o Chunilal Sutar 2/3 Geharilal S/o Chunilal 1/3 Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar

				1079	Private	Talabi 1	0.0200	Roop Lal S/o Mega Janva Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1234	Private	Bada	0.0100	Paras ram S/o Narayanlal Keshibai W/o Narayanlal Suthar 1/2 Dhanraj S/o Gehanlal 1/2 Suthar Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1236 M	Private	Kuwa 2	0.0250	Bheerulal S/o Moti Nai Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1237	Private	Kuwa 1	0.0225	Bheerulal S/o Moti Nai Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1239	Private	Beed 1	0.0050	Bhawarlal S/o Panna 1/3 Manori W/o Babulal Sanjay Bharat S/o Babulal Mangibai W/o Rupalal 1/3 Nai Gopalal S/o Kishanlal 1/3 Nai Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1246	Private	Commercial	0.0300	Kishanlal S/o Rata Nai Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
				1246	Private	Talabi 2	0.0250	Kishanlal S/o Rata Nai Sa. Deh Khatedar Niwashi Bhatewar
						Total	0.9775	
4			Vana	103 M	Private	Kua 3	0.0750	Mangilal S/o Pura Narani W/o Pura Meena Sa. Deh. Khatedar Mortgage SBBJ Menar
				104 M	Private	Beer 2	0.0400	Unkarlal Hukmichand S/o Shankarlal Brahman Sa. Deh. Khatedar Mortgage Unkarlal ka 1/2 Hissa par SBBJ Menar
				107 M	Private	Kua 3	0.0250	Bagdiram S/o Roopa Ode Sa. Deh.
				108 M	Private	Kua 3 Aabadi	0.0600	Bagdiram S/o Roopa Ode Sa. Deh.
				106/1	Private	Aabadi	0.0150	Premshankar Prakash Chand S/o Laxmilal Menaria Sa. Deh.
				130	Private	Khadi 2	0.0200	Mohanbai D/o of Unkar 1/3 Brahman Bhagwan S/o Rama 1/3, Bhura S/o Moti 1/3, Lohar Sa. Deh. Khatedar
				131	Private	Aabadi	0.0025	Mohanlal S/o Prabhulal Brahman Sa. Deh. Khatedar Mortgage SBBJ Bhinder
				136	Private	Kuwa 3	0.0450	Mohanbai D/o of Unkar Brahman Sa. Deh. Khatedar
				137	Private	Khada	0.0050	Narayanlal S/o Navarlam M. Mohanbai D/o Unkar Davilal S/o Rooplal M. Noji Beva Rooplal Sohanlal S/o Ganesh M. Pratabi Beva Ganesh Hiralal S/o Ramratan Omprakash Jamnailal S/o Dalchand Brahman
				138	Private	Khadi 1	0.0250	Harishankar S/o Unkarlal Brahman Sa. Deh. Khatedar
				139	Private	Kuwa 2	0.0150	Mohanbai D/o Unkar Brahman Sa. Deh. Khatedar
				140	Private	Ahahta Chah	0.0100	Mohanbai D/o Unkar Brahman Sa. Deh. Khatedar
				141	Private	Khadi 2	0.1100	Nandlal S/o Kalulal Brahman Sa. Deh.
				142	Government	Gair Mumkin Aabadi	0.4000	Bilanam Sarkar
				605	Private	Kua 2	0.0325	Rukmanibai /Laxmilal 1/10, Brahman Udi Beva Jagganath 3/20, Lohar Kamla Rupi Sajjan S/o Jagganath 3/4 Lohar Sa. Deh. Khatedar
				606	Private	Beer 1 Kua 2	0.0950	Kamla Rupi sajjan S/o Jagganath 3/4, Lohar Durgashankar Khubilal S/o Narayan 1/12, Brahman Rameshwarlal S/o Ambalal 7/9 Brahman M. Ambabai Beva Kishanlal 3/12, Prakash Punja S/o Unkarlal Na.Ba.Ba. V. Mother Kamla M. Kamla Beva Unkarlal 3/12, Brahman Sa. Deh. Khatedar
				611	Private	Gair Mumkin Makaan Kua 3	0.0325	Ganpat Uma Shankar Ramesh Banshilal Lahri S/o Bhuralal M.Lalita Beva Bhuralal 1/4, Banshilal S/o Hemraj 1/16, Mohanbai W/o Banshilal 3/16, Narayanlal S/o Unkar 1/2, Brahman Sa. Deh. Khatedar.
				708 M	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0150	Bilanam Sarkar
				710 M	Private	Kuwa 1	0.0175	Chatarbhuj Jashoda Shanta Uma S/o Shankarlal M. Sawagi Beva Shankarlal Suthar Sa. Deh. Khatedar
				711	Private	Beer 1	0.0750	Chatarbhuj Jashoda Shanta Uma S/o Shankarlal M. Sawagi Beva Shankarlal Suthar Sa. Deh. Khatedar
				712	Private	Kuwa 2	0.0200	Chatarbhuj Jashoda Shanta Uma S/o Shankarlal M. Sawagi Beva Shankarlal Suthar Sa. Deh. Khatedar
				714	Private	Paal	0.0150	Samast Maphidar Khas Up-kirshak Davilal S/o. Kishan Tali Sa. Deh. Sijari

				715 M	Private	Bada	0.0250	Kenhyalal Jamnalal Movani S/o Shankarlal Brahman Sa. Deh. Khatedar
				718 M	Private	Khadi 2	0.0900	Nandlal S/o Kalulal Brahman Sa. Deh.
				720 M	Private	Aabadi	0.0375	Mohanbai D/o Unkar 19/32 Unchai W/o Bhagwatilal 31/400 Rajudevi W/o Dashrath 263/800 Jamna W/o Chaganlal 31/400 Hissa Sa. Deh. Khatedar
				721 M	Private	Khadda	0.0050	Nandlal S/o Kalulal Brahman Sa. Deh.
				722 M	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0300	Bilanam Sarkar
				725 M	Private	Bada	0.0025	Dhannalal S/o Varilal Suthar Sa. Deh. Khatedar
				725/1	Private	Aavasiya	0.0025	Dhannalal S/o Varilal Suthar Sa. Deh. Khatedar
				726	Private	Bada	0.0075	Shrilal S/o Pratablal Brahman Sa. Deh. Khatedar
				727	Private	Bada	0.0050	Shankarlal S/o Kishna Brahman Sa. Deh. Khatedar Mortgage SBBJ Menar
				728	Private	Bada	0.0025	Mangilal Rooplal S/o Ganesh Brahman Sa. Deh.
				729	Private	Bada	0.0200	Girdharlal Rameshwarlal Badami Jashoda Laxmi S/o Ambalal Gendibai Beva Ambalal Brahman.
				740	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0075	Bilanam Sarkar
				742	Private	Bada	0.0100	Ganeshlal S/o Khemraj Brahman Sa. Deh. Khatedar
				743	Private	Bada	0.0050	Tulsiram S/o Khemraj Brahman Sa. Deh.
				745	Private	Bada	0.0150	Mathuralal Kishanal Vishnuram Prabhulal Bhuralal S/o Varilal Brahman Sa. Deh. Khatedar
				746	Private	Bada	0.0550	Narayanlal Hiralal S/o Chatarbhuji Brahman Narayanlal ka 1/2 Hissa Mortgage SBBJ Menar
				748 M	Government	Padat 2	0.3350	Bilanam Sarkar
						Total	1.8050	
5			Nawania	1808	Private	Mal 1 b padat 2	0.0300	Devandra kumar S/o Bhawarlal Dhobi Sa. Deh. Khatedar Niwashi Kheroda
				1809	Private	Mal 1 b padat 2	0.0200	Chhogalal S/o Khemraj Megwal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1810	Private	Mal 1 b padat 2	0.0050	Chhogalal S/o Khemraj 1/2 Megwal Sangeeta W/o Bhagwan lai 1/2 Khatik Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1811 M	Private	Mal 2	0.1050	Pyarchand S/o Nanda Piser Kaniram Modiram Bhagwan Khatik Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1813/1 M	Private	Mal 1 B	0.0125	Chhogalal S/o Khemraj Megwal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1814 M	Private	Mal 1 B	0.0250	Bhawarlal Paramal Shantabai Kalash bai Bebibai S/o Mangilal Dhapubai W/o Mangilal 6/7 Mithalal S/o Chunilal Anchhibai W/o Chunilal Mahajan 1/7 Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1815 M	Private	Mal 1 B	0.0225	Dharamraj S/o Pura Meghwal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1818 M	Private	Mal 2 B Bead 2	0.0300	Ritik S/o Khemraj Meghwal Sa. Deh. Kheatadar Niwashi Udaipur
				1819 M	Government	Gair Mumkin Rasta	0.0050	Bilanam Sarkar
				1821 M	Private	Mal 1 B	0.0400	Bhura S/o Nana 1/2 Gopilal Laxmilal Nakshtramal Bhagwatilal S/o Devkishan Jetubai W/o Devkishan 1/2 Gujar Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1823 Min	Private	Mal 1 B Padat 2	0.0400	Tulsiram S/o Dalu, Manibai Widow Dalu Janwa Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1824 Min	Private	Mal 1 B Mal 2	0.0200	Nirmala Devi W/o Shantilal Kalal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1825 Min	Private	Mal 2B Padat 2	0.0200	Nirmala Devi W/o Shantilal Kalal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1826 Min	Private	Mal 1 B	0.0100	Shyama Bai W/o Laxmilal Dholi, Sa. Deh. Khatedar Niwashi Kanod
				1827 Min	Private	Mal 1 B	0.0150	Dakhilbai W/o Sukhlal Dholi 1/2 R/o Keekawas, Rama S/o Amara 1/2 Meghwal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1828 Min	Private	Mal 1 B Commercial	0.0100	Dharmraj S/o Pura Meghwal Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.
				1850/2 Min	Private	Mal 1	0.0400	Bhura S/o Nana 1/2 Gopilal Laxmilal Nakshtramal Bhagwatilal S/o Devkishan Jetubai W/o Devkishan 1/2 Gujar Sa. Deh. Khatedar Niwashi Navania.

				1851 Min	Private	Mal 1	0.0400	Bheru Uraf Kaku S/o Babru Gurjar Sa. Deh Khatedar Niwashi Navania.
				1852 Min	Private	Mal 1	0.0400	Logar Uraf Heeralal S/o Uda Gurjar Sa. Deh Khatedar Niwashi Navania.
				1861/2	Private	Mal 2	0.0500	Kanna S/o Partha Balai Sa. Deh Khatedar Niwashi Navania.
				1861 Min	Private	Industrial	0.0500	Rodibai W/o Mangilal Megwal R/o Khalatod, P. Sukumaran Nair S/o N. Govindan Nair R/o. Udaipur
				1941/2 Min	Govt.	Gair Mumkin Aabadi	0.0050	Bilanam Sarkar
				2015 Min	Private	Mal 1	0.0400	Chamanshekhar S/o Unkar suthar Sa. Deh Khatedar Niwashi Navania.
				2016 Min	Private	Mal 1	0.0450	Tulsiram S/o Dalu, Manibai Widow Dalu Janwa Sa. Deh Khatedar Niwashi Navania.
				2019 Min	Private	Mal 2	0.0900	Meenadevi W/o Kakulal Jain Sa. Deh Khatedar Niwashi Udaipur.
				2020 Min	Private	Mal 1 Commercial	0.0200	Mohan S/o Dhanji Balai Sa. Deh Khatedar Niwashi Prasad.
				1813/2 Min	Private	Mal 1 B	0.0125	Simran W/o Rhtik meghwal R/o Udaipur
						Total	0.8425	
6			Badgaon	1	Tanaza	Gair Mumkin	0.0500	Bilanam Sarkar Gair Kabil Kasht
				79	Government	Rashta	0.0100	Bilanam Sarkar Gair Kabil Kasht
				81 Min	Private	Bhuri Retili kadim	0.0300	Shabhugar, heeragar S/o Bherugar Gusai R/o Amarpura 40/42 Natwar singh S/o Roopsingh 2/42 R/o Badgaon, Mortgage Central bank of India, branch Hinda Hissa Shambhugar 20/42
				83 Min	Private	Bhuri Retili kadim	0.0400	Shambhugar 1/2, heeragar 1/2 S/o Bherugar Gusai R/o Amarpura.
				84 Min	Private	Bhuri Retili kadim	0.0300	Bhagga S/o Dhanna 1/3 Banshilal, Kamli, Kali, Kanku S/o Narsingh, Durga, Hazari, Prithviraj, Ghisi S/o jasa, Dhapu Widow Jasa 2/3 equal Banjara Khatedar Niwashi Badgaon.
				85 Min	Private	Bhuri Retili kadim	0.0200	Bhagga S/o Dhanna 1/3 Banshilal, Kamli, Kali, Kanku S/o Narsingh, Durga, Hazari, Prithviraj, Ghisi S/o jasa, Dhapu Widow Jasa 2/3 equal Banjara Khatedar Niwashi Badgaon.
				121 Min	Private	Bhuri Retili kadim	0.0400	Bhanwar singh, Govindsingh, Natwar singh, Premsingh S/o Roopsingh 1/8 Equal Dungsingh, Unkar singh S/o Bherusingh, Madankunwar W/o Bherusingh 1/8 Kesharsingh, Nawalsingh, Himmatsingh, Mohabbat singh S/o Modsingh 1/4 Ishwar singh, Kesarsingh, Narayan singh Kalyansingh S/o Gopalsingh, Kishan Kunwar Widow Gopalsingh 1/8 Equal Chaman singh S/o Dhukalsingh 1/8 Prithvi singh, Mohansingh S/o Jaisingh 1/8, Fatehsingh, Arjun singh, Lalsingh, Mohankunwar, Shanker Kunwar, Sajjan Kunwar S/o Hamersingh, Mithukunwar W/o Hamersingh 1/8 equal Rajput R/o Vajmagri.
				125 Min	Private	Bhuri Retili Beed Kadim	0.1300	Heera S/o Unkar Gurjar R/o Negdia Khatedar
				164/1 Min	Private	Bhuri Retili Bid	0.0050	Hariram, Mangilal, Narayanlal S/o Devji Gurjar 3/4 R/o Negdia Rakesh S/o Mohanlal Jain 1/4 R/o Udaipur
				164/3 Min	Private	Bhuri Retili Bid	0.0100	Heera S/o Unkar Gurjar R/o Negdia Khatedar
				77 Min	Government	Bhat wed	0.0400	Bilanam Sarkar Gair Kabil Kasht
				163/1	Private	Bhuri Uttam Chahi	0.0100	Hariram, Mangilal, Narayanlal S/o Devji Gurjar 3/4 R/o Negdia Rakesh S/o Mohanlal Jain 1/4 R/o Udaipur
						TOTAL	0.4150	

[F. No. NHA/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

4640 9710-4